



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 भाद्र 1936 (श0)
(सं0 पटना 719) पटना, बुधवार, 3 सितम्बर 2014

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

अधिसूचना

1 सितम्बर 2014

सं0 5पुरा/सं0-1-05/10 (खंड)-27-28—राज्य सरकार ने बिहार राजपत्र के असाधारण अंक संख्या-554 दिनांक 09.07.2013 में प्रकाशित बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, (पुरातत्व निदेशालय) की अधिसूचना संख्या-5पुरा/सं0-1-05/10(खंड)-363 दिनांक 08.07.2013 द्वारा उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुरातात्विक स्थल मौरिसन विल्डिंग जो पटना जिला अन्तर्गत गोलघर के सटे स्थान/स्थल को प्राचीन स्मारक/पुरातत्व स्थल/अवशेष के रूप में सुरक्षित घोषित करने की प्रस्ताव सम्बन्धी अधिसूचना **“बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल, अवशेष तथा कला, निधि अधिनियम, 1976”** की धारा-3 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अन्तर्गत अधिसूचित की जिसकी एक प्रति उक्त प्राचीन स्मारक/पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष के निकट स्पष्ट रूप से द्रष्टव्य स्थल पर चिपका दी गई थी। इसके विरुद्ध सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा दो माह की अवधि के अन्दर आपत्ति अथवा सुझाव आमंत्रित किया गया था।

जनता को उपलब्ध कराई गई उक्त राजपत्रित अधिसूचना (संख्या-363 दिनांक 08.07.2013) के घोषित किए जाने के विरुद्ध निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुए। फलस्वरूप उक्त स्थल को सुरक्षित घोषित किए जाने योग्य समझा गया है।

अतएव, एतद् द्वारा राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा-3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक/पुरातत्व स्थल/अवशेष को सुरक्षित घोषित करती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुबोध कुमार चौधरी,

सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार द्वारा सुरक्षित घोषित किये जाने वाले प्राचीन पुरातात्विक स्थल, अवशेष की राजस्व विवरणी

क्रमांक	स्मारक / पुरातत्व स्थल का नाम	अवशेष	प्लॉट न०	तौजी न०	रकबा		चौहद्दी	जमीन की किस्म
					ए.	डि.		
1	2	3	4	5	6		7	8
1	मॉरिसन बिल्डिंग	खासमहल	828	369	0.40 (1 बीघा)	85.8 (13 कट्ठा)	पश्चिम में गोलघर, पूरब में आयुक्त कार्यालय, उत्तर में अशोक राजपथ, दक्षिण में आयुक्त कार्यालय परिसर	भवन

ग्राम	मौजा	प्रखंड	थाना	थाना नम्बर	जिला	अभ्युक्ति
9	10	11	12	13	14	15
अडरा	अडरा	पटना सदर	पटना	20	पटना	

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 719-571+500-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>